



(Formerly known as Meenakshi Enterprises Limited)  
A NBFC listed at Bombay Stock Exchange

CIN: L51102TZ1982PLC029253

Regd Office: Shop No 3, 1st Floor, Adhi Vinayaga Complex,  
No 3 Bus stand, Gopalsamy Temple Street, Ganapathy,  
Coimbatore, Tamil Nadu, India-641006  
Email: investor@jmjfintechltd.com  
Mob:7395922291/92

December 24, 2025

To,  
The Manager  
BSE Limited (BSE)  
P.J. Towers, Dalal Street,  
Mumbai-400001, Maharashtra, India,

BSE Scrip Code: 538834 and 890222

Dear Sir / Madam,

**Sub: Submission of Newspaper Advertisement for the First and Final Call Money Notice of ₹7.35/- (ISIN: IN9242Q01014) for the purpose of Rights issue of JMJ Fintech Limited in accordance with Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

**Ref.: Issue of up to 2,56,00,000 partly paid-up Equity Shares of face value of ₹10 each of JMJ Fintech Limited ("Company") ("Rights Equity Shares") for cash at a price of ₹10.50/- Each (including a premium of ₹0.50/- per rights equity share), aggregating up to ₹ 2688.00 Lakhs on a rights basis to the eligible equity shareholders of the Company.**

Pursuant to the provisions of the Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement for First and Final Call Money Notice intimation for the purpose of payment of First and Final Call to the holders of partly paid up equity shares held as on the Record Date i.e., Friday, December 19, 2025 payable from Wednesday, January 07, 2026 to Tuesday, January 27, 2026, as published in the following newspapers on 24<sup>th</sup> of December, 2025:

1. Financial Express– (English) National daily – All Editions
2. Jansatta– (Hindi) National Daily – All Editions
3. Makkal Kural– (Tamil) -Coimbatore Edition

Copies of the newspaper advertisement are enclosed herewith. The same are also available on the website of the Company at [www.jmjfintechltd.com](http://www.jmjfintechltd.com).

In this connection, we wish to inform you that, in terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), read with the relevant Rules made thereunder, First and Final Call Notice along with the detailed instructions and ASBA form has been sent in electronic mode to members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s) as on the Record Date i.e. Friday, December 19, 2025 and physical copy of the same have also been sent vide permitted modes of dispatch at the registered addresses of other Eligible Shareholders on December 23<sup>rd</sup> and 24<sup>th</sup> 2025 respectively as enclosed herewith.

You are requested to kindly take the same on records.

Thanking You  
Yours Faithfully  
For, JMJ Fintech Limited

Vidya Damodaran  
Company Secretary and Compliance Officer  
Membership no. A 69509



Encl. As Above.

This advertisement is for information purposes only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India.

Patel Engineering Limited

Our Company was incorporated as 'Patel Engineering Company Limited', a public limited company under the Indian Companies Act, VII of 1913, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai on April 2, 1949.

Corporate Identity Number: L99999MH1949PLC007039
Registered Office: Patel Estate SV Road, Jogeshwari (West), Mumbai - 400 102, Maharashtra, India.

ISSUE OF 14,77,65,820 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 27.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 26.00 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 3,989.68 MILLION\*

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Patel Engineering Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue which opened for subscription on Friday, December 12, 2025, and closed on Friday, December 19, 2025 and the last date for on market renunciation of Rights Entitlements was December 16, 2025.

The total number of valid applications received was 38,157 Application for 16,97,78,861 Rights Equity Shares, which was 114.90% of the issue size. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of allotment finalized on December 22, 2025, by the Company in consultation with NSE, the Designated Stock Exchange for the Issue and MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited), the Registrar to the Issue.

1. Basis of Allotment

Table with 5 columns: Category, No. of valid CAFs (including ASBA applications) received, No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A), No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B), Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)

2. Information Regarding Applications received (including ASBA applications received):

Table with 7 columns: Category, Applications Received (Number, %), Equity Shares Applied for (Number, Value (Rs.), %), Equity Shares Allotted (Number, Value (Rs.), %)

\*the Investors (identified based on DPID & Client Id) whose names do not appear in the list of Eligible Equity as Shareholders on the record date and who hold the REs as on the Issue Closing Date and have applied in the Issue are considered the Renounees.

Intimation for Allotment/refund/rejections: The instruction for unblocking of funds were issued to Self-Certified Syndicate Banks (SCSBs) and the listing applications were filed with both, the BSE and NSE on December 22, 2025. The dispatch of allotment advice cum unblocking intimation to the investors, as applicable, will be done after executing the corporate action for credit of equity shares into the respective demat accounts of the successful allottees on or about December 23, 2025, subject to grant of Listing Approval by BSE and NSE.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that submission of the Letter of Offer to NSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE Limited; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that submission of the Letter of Offer to BSE Limited should not for any reason be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer.

The investors may contact the Registrar to the Issue in case of any query(ies)/grievance(s) including for credit of rights equity shares and unblocking of funds.

REGISTRAR TO THE ISSUE
MUFG Intime
MUFG Intime India Private Limited
Registered Office: C-101, Embassy 247, L. B. S. Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083, Maharashtra, India

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE, THE RIGHTS EQUITY SHARES, OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Date : December 23, 2025
Place : Mumbai
Shobha Shetty
Company Secretary and Compliance Officer

Patel Engineering Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, a rights issue of its Equity Shares and has in this regard filed a Letter of Offer dated November 28, 2025 with Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on the website of the Company at https://www.pateleng.com/ and on the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and NSE India at www.nseindia.com.

The Rights entitlement and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws.

HINDUJHA HOUSING FINANCE LIMITED
कर्मचारी सुचना (अवलोकन के लिए)
गैरकर्मचारी सुचना (अवलोकन के लिए)

त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड
कम्पनी पहचान संख्या: L29110UP1995PLC041834
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: 401, वीपीटीपी कॉम्प्लेक्स सिटी, सेक्टर 94, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 301

शेयरधारकों की सूचना
त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के नितीक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विज्ञापन
पुनर्प्राप्ति के लिए विशेष विज्ञापन SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/PI/CI/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार और निदेशकों द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों में उनको अधिकारों की रक्षा के लिए, त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड (कंपनी) को शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि 7 जुलाई, 2025 से पहले प्रस्तुत किए गए और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्य किसी कारण से अस्वीकृत/बायस किए गए/अनदेखे किए गए हस्तांतरण विलोको को पुनः प्रस्तुत किया जा सके।

रेलटेल
भारत सरकार का उपक्रम
सीआईएन- L64202DL2006G0107905
RailTel/Tender/OTCO/Project/2025-26/OTN/23 तारीख: 19.12.2025
OTN की सफलता के लिए एंटी-डॉटनेट में एंटी करने के लिए OEM/वेडर का चुनाव

प्रकाशन हेतु सूचना
ऋण बचती अपीलीको न्यायाधिकरण - दिल्ली
अपॉइंटमेंट नंबर 318 तीसरी मंजिल, झोटल समार कोर्टबिल्डिंग नं. 1, नया बंधुपुड़ी, नई दिल्ली-110021
Misc. Appeal No. 253/2024
In O.A No.12/2024 (बीआरटी-III, दिल्ली)

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

भारतीय रिजर्व बैंक नोट सूचना प्रा. लिमिटेड (बीआरबीएनपीएल)
(भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी)
पो.बो. आरबीएनपीएल, शालमरी-721132, पश्चिम मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल
फोन नं. 03227-280176/280317; ईमेल: salbonipress@brbnmpi.co.in

खुली निविदा प्रस्ताव (ओटीई) / राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (एनटीबी)
निम्नलिखित निविदा के लिए एनटीबी पोर्टल के माध्यम से बोली प्रस्तावी के तहत बोलियां आमंत्रित की जाती हैं -
1. बीआरबीएनपीएल, शालमरी में इन्वेंट्री स्टॉक में निम्नलिखित की खरीद और इंटेलिजेंट (सीएनटी) स्टॉक, एनटीबी पोर्टल पर, बीआरबीएनपीएल/शालमरी प्रेष/एनटीबी/41/25-26/ईटी/73 (मिशन विनो) को अंतिम निविदा संख्या 024/सात/एनटीबी-रिवि/2025-26/अनुमति लागत-₹199.80 लाख।

कार्यालय शासकीय समापक उतर प्रदेश
सम्बन्धित उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
9वां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद 211001 फोन नं.-0532 -2560312

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
कम्पनीज एक्ट, 1956
तथा
मे० कुबेर मुचेल बनेफिट लि० (समापन में)
के सम्बन्ध में
कम्पनी पीटिशन नं.-87/1999
दावाकर्ता हेतु सूचना
उपयुक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.12.2025 के अनुपालन में सभी ऐसे दावाकर्ता से जिन्होंने शासकीय समापक कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत किया है, को सूचित किया जाता है कि उनका दावा इस कार्यालय द्वारा समायोजित कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया है। सभी दावाकर्ता अपने दावों का प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के मध्य शासकीय समापक कार्यालय में निरीक्षण कर सकते हैं तथा वे अपने दावों की स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए 24/01/2026 तक आपत्ति / अपील, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दर्ज कर सकते हैं।

jmj Fintech Ltd.
JM J FINTECH LIMITED
Corporate Identification Number : L51102TZ1982PLC029253
Registered Office : Shop No. 3, 1st Floor, Adhi Vinayaga Complex, No. 3, Bus Stand, Gopalsamy Temple Street, Ganapathy, Coimbatore, Ganapathy, Coimbatore, Coimbatore North, Tamil Nadu, India, 641006

This advertisement is for intimation purpose only and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the same meaning assigned to them in the letter of offer dated July 12, 2025 filed with BSE Limited ("BSE") (hereinafter referred to as "Stock Exchange") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

FIRST AND FINAL CALL MONEY NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES (ISIN : IN9242Q01014) HELD AS ON THE RECORD DATE I.E. FRIDAY, DECEMBER 19, 2025.

In terms of the Letter of Offer dated July 12, 2025 ("Letter of Offer"), the Company had issued partly paid-up equity shares, on a rights basis, to its existing eligible shareholders at an issue price of ₹ 10.50/- each including a share premium of ₹ 0.50/- per rights equity share, in the ratio of 2 (Two) rights equity shares for every 1 (One) fully paid-up share held by equity shareholders as on the record date i.e. Friday, July 11, 2025.

In accordance with the terms of the issue as mentioned in the Letter of Offer, the Company has received ₹ 3.15/- (comprising ₹ 3/- towards face value and ₹ 0.15/- towards share premium) per partly paid-up equity share as application money and the partly paid-up equity shares were allotted on Thursday, August 21, 2025. The amount of ₹ 7.35/- per partly paid-up equity share (comprising ₹ 7/- towards face value and ₹ 0.35/- towards share premium) is payable on First and Final Call (the "First and Final Call").

The Board of Directors of the Company ("Board") has, at its meeting held on Wednesday, December 03, 2025 decided to make the First and Final Call of ₹ 7.35/- in respect of 2,56,00,000 Outstanding Partly Paid-up equity shares of face value ₹ 10 each, issued by the Company, on a rights basis, pursuant to the Letter of Offer.

The Board has fixed Friday, December 19, 2025 as the record date ("Record Date") for the purpose of determining the holders of partly paid-up equity shares to whom the notice for the First and Final Call (the "First and Final Call Notice"), has been sent. The Company has intimated the Record Date to the BSE on Wednesday, December 03, 2025.

Accordingly, in terms of provisions of Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder and the Letter of Offer, the First and Final Call Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares whose e-mail addresses are registered with Company or its Registrar and Transfer Agent ("RTA") or Depository Participant ("DP") as on the Record Date i.e. Friday, December 19, 2025. Further physical copy of First and Final Call Notice along with detailed instructions, has been dispatched through permitted modes at the registered address of those shareholders: a. who has not registered their e-mail address with the Company or its RTA or Depository Participant(s); or b. who has specifically registered their request for the hard copy of the same. The Company has completed the dispatch of the First and Final Call Notice on Tuesday, December 23, 2025. The specimen copy of the First and Final Call Notice is also available on website of the Company at www.jmjfintechltd.com.

Table with 3 columns: Amount Due, Call Payment Period, Modes of Payment

Please visit https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmid=34 to refer to the list of existing SCSBs (Self-Certified Syndicate Banks)

In accordance with the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-1/PI/CI/2024/0154 dated November 11, 2024 shareholders can also make the First and Final Call Money payment by using the facility of linked online trading-demat-bank account (3-in-1 type accounts), provided by some of the brokers. Shareholders must log into their demat account and under the relevant section proceed with the payment for First and Final Call Money of JM J Fintech Limited. Shareholders are requested to check with their respective brokers for exact process to be followed. Shareholders may please note that this payment method can be used only if the concerned broker has made this facility available to their customer. The Company or the Registrar will not be responsible for non-availability of this payment method to the shareholders.

Shareholders are required to make payment of the First and Final Call Money on or before Tuesday, January 27, 2026. Please note that, failure to pay the First and Final Call Money, as aforesaid shall render the partly paid-up equity shares of the Company held by them, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

- i. The trading in ISIN-IN9242Q01014 representing partly paid-up equity shares of face value ₹ 10/- each (₹ 3 Paid-up) has been suspended by the Stock Exchange effective from December 19, 2025. Further the ISIN-IN9242Q01014 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
ii. The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up equity shares under the present ISIN-IN9242Q01016 for the existing fully paid-up equity shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed within seven to eight weeks from the last date of payment of the First and Final Call Money stipulated under this Notice.
iii. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN-IN9242Q01016, allotted by depositories.
iv. In case of non-receipt of the First and Final Call Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate First and Final Call Notice to the Registrar or may also download the same from the Company's website : www.jmjfintechltd.com or the Registrar's website : www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder would need to fill the DP ID-Client ID, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Final Call Money.
v. The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.
All correspondence in this regard may be addressed to :

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400 011, Maharashtra, India
Tel. : 022-23010771 / 49614132
E-mail : support@purvashare.com
Website : www.purvashare.com
Contact Person : Ms. Deepali Dhuri
SEBI Registration Number : INR000001112
For, JM J Fintech Limited
Sd/-
Joju Madathumpady Johny
Managing Director
Date : December 23, 2025
DIN : 02712125





## खबर कोना

चावल के लिए ई-नीलामी आज और 26 दिसंबर को होगी कोलकाता, 23 दिसंबर (जनसत्ता)।

भारत सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण और चावल की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) फिर से शुरू की है। चावल के लिए ई-नीलामी 24 और 26 दिसंबर को आयोजित की जानी है, जिसके लिए चावल की बिक्री के लिए 19 दिसंबर को निविदा जारी की गई है। जीएसटी पंजीकृत चावल उत्पादों के व्यापारी/पैमलबद्ध थोक क्रेता/निर्माता केवल उस राज्य/संघ शासित प्रदेश के जीएसटी/व्यापार कर पंजीकरण के खिलाफ प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग से ई-नीलामी में भाग लेंगे। वह चावल (कच्चा/उबला हुआ) के लिए न्यूनतम एक मीट्रिक टन की मात्रा से बोली लगा सकते हैं और किसी क्षेत्र में चावल की एकल ई-नीलामी में सभी डिप्टी के लिए बोली लगाने वाली प्रति बोलीदाता अधिकतम बोली मात्रा 7000 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होगी।

**बोलपुर-शांतिनिकेतन पोष मेले में पंजाब नेशनल बैंक ने किया स्टाल का उद्घाटन**

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने पश्चिम बंगाल के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजनों में से एक बोलपुर के प्रसिद्ध पोष मेले में अपने स्टाल का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में जनता की भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली और पंजाब नेशनल बैंक के गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। स्टाल का उद्घाटन मुख्य अतिथि, बोलपुर के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष मलय पिट ने किया। मुख्य अतिथि, पीएनबी द्वारा पूरे जोन के महाप्रबंधक संजीव कुमार और विशिष्ट अतिथियों में पीएनबी वर्धमान के सकेल हेड बुद्धदेव साहा, डीसीएच प्रदीप चंद्र प्रभात, मनीष पांडे आदि उपस्थित थे।

**राज्य सरकार सिर्फ छह लाख रुपए में देगी प्लेट**

राज्य सरकार सिर्फ छह लाख रुपए में प्लेट प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने फैसला किया है कि आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवारों को सस्ती दर में प्लेट प्रदान किए जाएंगे। मालूम हो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जुलाई में न्यून टाइम इलाके में निजानो और सुजानो नामक परियोजना का शिलान्यास किया था, जिससे गरीब और कम आय वर्ग के लोगों के रहने के लिए ठिकाना प्रदान किया जा सके। लोगों में कौतूहल था कि किस क्रम पर रिहायश उपलब्ध करवाई जाएगी। अब राज्य सरकार ने क्रमों के बारे में खुलासा करते हुए पत्रकारों को सूचित किया है कि जल्द ही आवेदन करने के नियमों के बारे में बताते हुए जानकारी दी जाएगी।

## हंसखालि में किशोरी से बलात्कार और हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद

पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने नदिया जिले के हंसखालि में 2022 में एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार के मामले में मंगलवार को नौ दोषियों में से तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चोटों के कारण किशोरी की बाद में मौत हो गई थी। रानाघाट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) न्यायालय ने ब्रजगोपाल गोआली, प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मलिक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के तहत किशोरी से सामूहिक बलात्कार करने, आपराधिक साजिश रचने और सबूत नष्ट करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी ब्रजगोपाल के पिता समरेंद्र गोआली को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि इनमें से एक दोषी घटना के समय नाबालिग था और उसे एक वर्ष तक अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्त के साथ 50 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। अधिवक्ता ने बताया कि शेष दोषियों को आपराधिक साजिश, सबूतों को नष्ट करने और आपराधिक धमकी सहित अन्य अपराधों के लिए कम कारावास की सजा दी गई। रानाघाट की एडीजे अदालत ने हंसखालि में 2022 में चोटों के कारण दम तोड़ देने वाली किशोरी

## हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में किया प्रदर्शन

हिंदूवादी संगठन के सैकड़ों समर्थकों ने बांग्लादेश के उप उच्चायोग की ओर मार्च करने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों के साथ हुई झड़प कोलकाता, 23 दिसंबर (भाषा)।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कथित हमले के विरोध में एक हिंदूवादी संगठन के सैकड़ों समर्थकों ने मंगलवार दोपहर को यहां बांग्लादेश के उप उच्चायोग की ओर मार्च करने की कोशिश की और जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई। बेकबागन में स्थित बांग्लादेश उप उच्चायोग कार्यालय के करीब पहुंचने की कोशिश में प्रदर्शनकारियों ने कई बैरिकेड तोड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस के अनुसार कम से कम 12 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। झड़प में कई प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने स्थिति नियंत्रण में है। यहां अवैध रूप से इकट्ठा होने की कोशिश करने वालों को हटा दिया गया है। अब तक इलाके में 12 लोगों को

**शुभेदु ने मांगा बांग्लादेशी उप-उच्चायुक्त से मुलाकात का समय**

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि अगर उन्हें यहां बांग्लादेश के उप-उच्चायुक्त के साथ बैठक के लिए समय नहीं दिया गया, तो वह कोलकाता में बांग्लादेश के उप-उच्चायोग को संचालित नहीं होने देंगे। अधिकारी ने कहा कि वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने कोलकाता में पड़ोसी देश के उप-उच्चायुक्त से मुलाकात का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि मैं बैठक में अकेला जाऊंगा, लेकिन अगर मुलाकात का समय नहीं दिया गया, तो हम 26 दिसंबर से बड़े पैमाने पर एकत्र होना सुनिश्चित करेंगे। हम भारत में उप-उच्चायोग को सुचारु रूप से काम नहीं करने देंगे। अधिकारी ने यह बयान हाहिंदू हुंकार पदयात्रा नामक मार्च का नेतृत्व करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया। इस मार्च को पार्क सर्कस में बांग्लादेश उप-उच्चायोग जाने के दौरान पुलिस ने बीच में ही रोक दिया था, जिसके कारण झड़प हुई थी।

गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि विदेशी राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिसर के घेराव के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए उप उच्चायोग कार्यालय के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हिंदू हुंकार पदयात्रा शीर्षक से विरोध मार्च का आयोजन 'बांगियो हिंदू जागरण' के बैनर तले किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कथित हिंसा के खिलाफ नारे लगाते और भगवा झंडे धामे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मार्च में हिस्सा लिया।



बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हिंदू जागरण मंच के सदस्य।

## मेस्सी के कार्यक्रम में गड़बड़ी के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा एसआइटी की जांच में दखल नहीं देंगे

कोलकाता, 23 दिसंबर (भाषा)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को साल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबाल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के दौरान हुई गड़बड़ी की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआइटी) के काम में इस स्तर पर दखल देने से इनकार कर दिया। कार्यक्रमी मुख्य न्यायाधीश सुजाय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि मामले में जांच और पूछताछ शुरूआती चरण में है और उसके सामने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि जांच या पूछताछ में कोई गड़बड़ी है। तीन जनहित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने घटना की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के साथ-साथ दर्शकों को टिकट के पैसे वापस करने का अनुरोध किया था। दर्शकों का एक वर्ग अपने पसंदीदा खिलाड़ी को न देख पाने से नाराज होकर उपद्रव करने लगा था। मैदान पर अव्यवस्थित हालात और कुछ लोगों द्वारा मेस्सी के आसपास धक्का-मुक्की किए जाने के कारण कार्यक्रम को समय से पहले समाप्त करना पड़ा, जिससे स्टेड में बैठे दर्शक नाराज हो गए। इस मामले में अंतरिम राहत की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इस स्तर पर वह दखल देने और जांच पर रोक लगाने की इच्छुक नहीं है। खंडपीठ में न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन भी शामिल हैं।

## मुर्शिदाबाद में पिता-पुत्र की हत्या करने के मामले में 13 लोगों को आजीवन कारावास

कोलकाता, 23 दिसंबर (भाषा)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की एक अदालत ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान अप्रैल में पिता-पुत्र की भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने के मामले में मंगलवार को 13 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक विवास चटर्जी ने दावा किया कि भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने का यह देश का दूसरा और पश्चिम बंगाल का पहला मामला है, जिसमें दोषसिद्धि हुई। जागीपुर की त्वरित अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। बारह अप्रैल को शमशेरगंज थाना क्षेत्र के जाफराबाद स्थित एक मकान में भीड़ ने हरगोविंद दास (72) और उनके बेटे चंदन दास (42) की हत्या कर दी थी। चटर्जी ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी क्योंकि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील करने के बारे में निर्णय लेगी। अदालत ने सोमवार को 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सभी दोषियों को डकैती के लिए 10 साल, घर में जबरन घुसने के लिए 10 साल और दंगा करने

## हाई कोर्ट ने चिंगरीघाटा में मेट्रो का काम 15 फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए

कोलकाता, 23 दिसंबर (भाषा)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दक्षिण कोलकाता के कई क्षेत्रों को आइटी केंद्र साल्ट लेक सेक्टर-5 से जोड़ने वाली मेट्रो रेलवे परियोजना के काम में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार को निर्देश दिया कि यह काम अगले वर्ष 15 फरवरी तक पूरा किया जाए। पुलिस अधिकारियों द्वारा सड़क बंद करने की अनुमति देने के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजाय पाल की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छह जनवरी तक मेट्रो रेलवे को सुचित करें कि पूर्वी मेट्रोपालिटन वॉर्ड्स पर व्यस्त चिंगरीघाटा क्रॉसिंग पर काम पूरा करने के लिए आवश्यक किन तीन दिनों के लिए यातायात बंद किया जाएगा। अदालत ने निर्देश दिया कि ओवरहेड मेट्रो रेल ट्रेक के निर्माण का काम 15 फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाए।

**JMJ Fintech Ltd.**  
Corporate Identification Number : L51102T21982PLC029253  
Registered Office : Shop No. 3, 1st Floor, Adhi Vinayaga Complex, No. 3, Bus Stand, Gopalsamy Temple Street, Ganapathy, Coimbatore, Tamil Nadu, India, 641006  
Telephone : 7395922291, E-mail : investor@jmfintechtd.com, Website : www.jmfintechtd.com  
Contact Person : Mrs. Vidya Damodaran, Company Secretary and Compliance Officer

**FIRST AND FINAL CALL MONEY NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES (ISIN : IN9242Q01014) HELD AS ON THE RECORD DATE I.E. FRIDAY, DECEMBER 19, 2025.**

In terms of the Letter of Offer dated July 12, 2025 ("Letter of Offer"), the Company had issued partly paid-up equity shares, on a rights basis, to its existing eligible shareholders at an issue price of ₹ 10.50/- each including a share premium of ₹ 0.50/- per rights equity share, in the ratio of 2 (Two) rights equity shares for every 1 (One) fully paid-up share held by equity shareholders as on the record date i.e. Friday, July 11, 2025.

In accordance with the terms of the issue as mentioned in the Letter of Offer, the Company had received ₹ 3.15/- (comprising ₹ 3/- towards face value and ₹ 0.15/- towards share premium) per partly paid-up equity share as application money and the partly paid-up equity shares were allotted on Thursday, August 21, 2025. The amount of ₹ 7.35/- per partly paid-up equity share (comprising ₹ 7/- towards face value and ₹ 0.35/- towards share premium) is payable on First and Final Call (the "First and Final Call"). The Board of Directors of the Company ("Board") has, at its meeting held on Wednesday, December 03, 2025 decided to make the First and Final Call of ₹ 7.35/- in respect of 2,56,00,000 outstanding Partly Paid-up equity shares of face value ₹ 10 each, issued by the Company, on a rights basis, pursuant to the Letter of Offer.

The Board has fixed Friday, December 19, 2025 as the record date ("Record Date") for the purpose of determining the holders of partly paid-up equity shares to whom the notice for the First and Final Call (the "First and Final Call Notice"), has been sent. The Company has intimated the Record Date to the BSE on Wednesday, December 03, 2025. Accordingly, in terms of provisions of Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder and the Letter of Offer, the First and Final Call Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares whose e-mail addresses are registered with Company or its Registrar and Transfer Agent ("RTA") or Depository Participant ("DP") as on the Record Date i.e. Friday, December 19, 2025. Further physical copy of First and Final Call Notice along with detailed instructions, has been dispatched through permitted modes at the registered address of those shareholders; a. who has not registered their e-mail address with the Company or its RTA or Depository Participant(s); or b. who has specifically registered their request for the hard copy of the same. The Company has completed the dispatch of the First and Final Call Notice on Tuesday, December 23, 2025. The specimen copy of the First and Final Call Notice is also available on website of the Company at www.jmfintechtd.com.

Amount Due	₹ 7.35/- per partly paid-up equity share held by shareholders as on the Record Date.		
Call Payment Period	From	To	Duration
	Wednesday, January 07, 2026	Tuesday, January 27, 2026	21 days
Modes of Payment	Online ASBA - Through an online Portal of the SCSBs.		
	Physical ASBA - By submitting physical application to the Designated Branch of SCSBs		
	3-in-1 online trading demat bank account		

Please visit <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?do=RecognisedPpnyes&intmid=34> to refer to the list of existing SCSBs (Self-Certified Syndicate Banks). In accordance with the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/0154 dated November 11, 2024 shareholders can also make the First and Final Call Money payment by using the facility of linked online trading-demat-bank account (3-in-1 type accounts), provided by some of the brokers. Shareholders must log into their demat account and under the relevant section proceed with the payment for First and Final Call Money of JMJ Fintech Limited. Shareholders are requested to check with their respective brokers for exact process to be followed. Shareholders may please note that this payment method can be used only if the concerned broker has made this facility available to their customer. The Company or the Registrar will not be responsible for non-availability of this payment method to the shareholders.

- Shareholders are required to make payment of the First and Final Call Money on or before **Tuesday, January 27, 2026**. Please note that, failure to pay the First and Final Call Money, as aforesaid shall render the partly paid-up equity shares of the Company held by them, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.
- The trading in ISIN-IN9242Q01014 representing partly paid-up equity shares of face value ₹ 10/- each (₹ 3 Paid-up) has been suspended by the Stock Exchange effective from December 19, 2025. Further the ISIN-IN9242Q01014 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
  - The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up equity shares under the present ISIN-IN9242Q01016 for the existing fully paid-up equity shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed within seven to eight weeks from the last date of payment of the First and Final Call Money stipulated under this Notice.
  - Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN-IN9242Q01016, allotted by depositories.
  - In case of non-receipt of the First and Final Call Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate First and Final Call Notice to the Registrar or may also download the same from the Company's website : www.jmfintechtd.com or the Registrar's website : www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder needs to fill the DP ID-Client ID, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Final Call Money.
  - The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in this regard may be addressed to :

**PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED**  
9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400 011, Maharashtra, India  
Tel. : 022-23010771 / 49614132  
E-mail : support@purvashare.com  
Website : www.purvashare.com  
Contact Person : Ms. Deepali Dhuri  
SEBI Registration Number : INR000001112

For, JMJ Fintech Limited  
Sd/-  
Joju Madathumpady Johnny  
Managing Director  
DIN : 02712125

Place : Coimbatore  
Date : December 23, 2025

**पंजाब एण्ड सिंध बैंक**  
(भारत सरकार का संयुक्त)।  
प्र.क. ऋण सहायता एवं विकास विभाग बैंक इलाहाबाद।  
7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 7/32, 7/33, 7/34, 7/35, 7/36, 7/37, 7/38, 7/39, 7/40, 7/41, 7/42, 7/43, 7/44, 7/45, 7/46, 7/47, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52, 7/53, 7/54, 7/55, 7/56, 7/57, 7/58, 7/59, 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/64, 7/65, 7/66, 7/67, 7/68, 7/69, 7/70, 7/71, 7/72, 7/73, 7/74, 7/75, 7/76, 7/77, 7/78, 7/79, 7/80, 7/81, 7/82, 7/83, 7/84, 7/85, 7/86, 7/87, 7/88, 7/89, 7/90, 7/91, 7/92, 7/93, 7/94, 7/95, 7/96, 7/97, 7/98, 7/99, 7/100, 7/101, 7/102, 7/103, 7/104, 7/105, 7/106, 7/107, 7/108, 7/109, 7/110, 7/111, 7/112, 7/113, 7/114, 7/115, 7/116, 7/117, 7/118, 7/119, 7/120, 7/121, 7/122, 7/123, 7/124, 7/125, 7/126, 7/127, 7/128, 7/129, 7/130, 7/131, 7/132, 7/133, 7/134, 7/135, 7/136, 7/137, 7/138, 7/139, 7/140, 7/141, 7/142, 7/143, 7/144, 7/145, 7/146, 7/147, 7/148, 7/149, 7/150, 7/151, 7/152, 7/153, 7/154, 7/155, 7/156, 7/157, 7/158, 7/159, 7/160, 7/161, 7/162, 7/163, 7/164, 7/165, 7/166, 7/167, 7/168, 7/169, 7/170, 7/171, 7/172, 7/173, 7/174, 7/175, 7/176, 7/177, 7/178, 7/179, 7/180, 7/181, 7/182, 7/183, 7/184, 7/185, 7/186, 7/187, 7/188, 7/189, 7/190, 7/191, 7/192, 7/193, 7/194, 7/195, 7/196, 7/197, 7/198, 7/199, 7/200, 7/201, 7/202, 7/203, 7/204, 7/205, 7/206, 7/207, 7/208, 7/209, 7/210, 7/211, 7/212, 7/213, 7/214, 7/215, 7/216, 7/217, 7/218, 7/219, 7/220, 7/221, 7/222, 7/223, 7/224, 7/225, 7/226, 7/227, 7/228, 7/229, 7/230, 7/231, 7/232, 7/233, 7/234, 7/235, 7/236, 7/237, 7/238, 7/239, 7/240, 7/241, 7/242, 7/243, 7/244, 7/245, 7/246, 7/247, 7/248, 7/249, 7/250, 7/251, 7/252, 7/253, 7/254, 7/255, 7/256, 7/257, 7/258, 7/259, 7/260, 7/261, 7/262, 7/263, 7/264, 7/265, 7/266, 7/267, 7/268, 7/269, 7/270, 7/271, 7/272, 7/273, 7/274, 7/275, 7/276, 7/277, 7/278, 7/279, 7/280, 7/281, 7/282, 7/283, 7/284, 7/285, 7/286, 7/287, 7/288, 7/289, 7/290, 7/291, 7/292, 7/293, 7/294, 7/295, 7/296, 7/297, 7/298, 7/299, 7/300, 7/301, 7/302, 7/303, 7/304, 7/305, 7/306, 7/307, 7/308, 7/309, 7/310, 7/311, 7/312, 7/313, 7/314, 7/315, 7/316, 7/317, 7/318, 7/319, 7/320, 7/321, 7/322, 7/323, 7/324, 7/325, 7/326, 7/327, 7/328, 7/329, 7/330, 7/331, 7/332, 7/333, 7/334, 7/335, 7/336, 7/337, 7/338, 7/339, 7/340, 7/341, 7/342, 7/343, 7/344, 7/345, 7/346, 7/347, 7/348, 7/349, 7/350, 7/351, 7/352, 7/353, 7/354, 7/355, 7/356, 7/357, 7/358, 7/359, 7/360, 7/361, 7/362, 7/363, 7/364, 7/365, 7/366, 7/367, 7/368, 7/369, 7/370, 7/371, 7/372, 7/373, 7/374, 7/375, 7/376, 7/377, 7/378, 7/379, 7/380, 7/381, 7/382, 7/383, 7/384, 7/385, 7/386, 7/387, 7/388, 7/389, 7/390, 7/391, 7/392, 7/393, 7/394, 7/395, 7/396, 7/397, 7/398, 7/399, 7/400, 7/401, 7/402, 7/403, 7/404, 7/405, 7/406, 7/407, 7/408, 7/409, 7/410, 7/411, 7/412, 7/413, 7/414, 7/415, 7/416, 7/417, 7/418, 7/419, 7/420, 7/421, 7/422, 7/423, 7/424, 7/425, 7/426, 7/427, 7/428, 7/429, 7/430, 7/431, 7/432, 7/433, 7/434, 7/435, 7/436, 7/437, 7/438, 7/439, 7/440, 7/441, 7/442, 7/443, 7/444, 7/445, 7/446, 7/447, 7/448, 7/449, 7/450, 7/451, 7/452, 7/453, 7/454, 7/455, 7/456, 7/457, 7/458, 7/459, 7/460, 7/461, 7/462, 7/463, 7/464, 7/465, 7/466, 7/467, 7/468, 7/469, 7/470, 7/471, 7/472, 7/473, 7/474, 7/475, 7/476, 7/477, 7/478, 7/479, 7/480, 7/481, 7/482, 7/483, 7/484, 7/485, 7/486, 7/487, 7/488, 7/489, 7/490, 7/491, 7/492, 7/493, 7/494, 7/495, 7/496, 7/497, 7/498, 7/499, 7/500, 7/501, 7/502, 7/503, 7/504, 7/505, 7/506, 7/507, 7/508, 7/509, 7/510, 7/511, 7/512, 7/513, 7/514, 7/515, 7/516, 7/517, 7/518, 7/519, 7/520, 7/521, 7/522, 7/523, 7/524, 7/525, 7/526, 7/527, 7/528, 7/529, 7/530, 7/531, 7/532, 7/533, 7/534, 7/535, 7/536, 7/537, 7/538, 7/539, 7/540, 7/541, 7/542, 7/543, 7/544, 7/545, 7/546, 7/547, 7/548, 7/549, 7/550, 7/551, 7/552, 7/553, 7/554, 7/555, 7/556, 7/557, 7/558, 7/559, 7/560, 7/561, 7/562, 7/563, 7/564, 7/565, 7/566, 7/567, 7/568, 7/569, 7/570, 7/571, 7/572, 7/573, 7/574, 7/575, 7/576, 7/577, 7/578, 7/579, 7/580, 7/581, 7/582, 7/583, 7/584, 7/585, 7/586, 7/587, 7/588, 7/589, 7/590, 7/591, 7/592, 7/593, 7/594, 7/595, 7/596, 7/597, 7/598, 7/599, 7/600, 7/601, 7/602, 7/603, 7/604, 7/605, 7/606, 7/607, 7/608, 7/609, 7/610, 7/611, 7/612, 7/613, 7/614, 7/615, 7/616, 7/617, 7/618, 7/619, 7/620, 7/621, 7/622, 7/623, 7/624, 7/625, 7/626, 7/627, 7/628, 7/629, 7/630, 7/631, 7/632, 7/633, 7/634, 7/635, 7/636, 7/637, 7/638, 7/639, 7/640, 7/641, 7/642, 7/643, 7/644, 7/645, 7/646, 7/647, 7/648, 7/649, 7/650, 7/651, 7/652, 7/653, 7/654, 7/655, 7/656, 7/657, 7/658, 7/659, 7/660, 7/661, 7/662, 7/663, 7/664, 7/665, 7/666, 7/667, 7/668, 7/669, 7/670, 7/671, 7/672, 7/673, 7/674, 7/675, 7/676, 7/677, 7/678, 7/679, 7/680, 7/681, 7/682, 7/683, 7/684, 7/685, 7/686, 7/687, 7/688, 7/689, 7/690, 7/691, 7/692, 7/693, 7/694, 7/695, 7/696, 7/697, 7/698, 7/699, 7/700, 7/701, 7/702, 7/703, 7/704, 7/705, 7/706, 7/707, 7/708, 7/709, 7/710, 7/711, 7/712, 7/713, 7/714, 7/715, 7/716, 7/717, 7/718, 7/719, 7/720, 7/721, 7/722, 7/723, 7/724, 7/725, 7/726, 7/727, 7/728, 7/729, 7/730, 7/731, 7/732, 7/733, 7/734, 7/735, 7/736, 7/737, 7/738, 7/739, 7/740, 7/741, 7/742, 7/743, 7/744, 7/745, 7/746, 7/747, 7/748, 7/749, 7/750, 7/751, 7/

**UNIVASTU INDIA LIMITED**  
 Registered office : Bunglow No. 36/B, CTS No. 994 & 945 (S.No. 117 & 118), Madhav Baug, Shivtirh Nagar, Kothrud, Pune - 411038.  
 Ph.: 020 2543 4617, Email: cs@univastu.com, Website : www.univastu.com, CIN - L45100PN2009PLC1333864

**NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the **EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING ("EOGM")** of the members of **UNIVASTU INDIA LIMITED** ("the Company") is scheduled to be held on **Tuesday, 20<sup>th</sup> January, 2026 at 11:00 a.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set forth in the Notice of EOGM with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, without the physical presence of the members at a common venue.

Further, notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 14<sup>th</sup> January, 2026 to Tuesday, 20<sup>th</sup> January, 2026 (both days inclusive), for the purpose of EOGM.

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular; the Notice of Extra-ordinary General Meeting has been sent via electronic mode to those members whose email address(es) are registered with the company or Registrar and Share Transfer Agent (R & T Agent) viz. Big Share Services Private Limited or with their respective Depository Participant(s) as on Friday, 19<sup>th</sup> December 2025 ("Relevant Date"). With the notice of the Extra Ordinary General Meeting is also available on the Company's website [www.univastu.com](http://www.univastu.com) and on the website of the Stock Exchange on which the Company's shares are listed viz. National Stock Exchange of India Limited [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and website of Big Share Services Private Limited [www.bigshare.com](http://www.bigshare.com)

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards (SS-2) on General Meetings and Regulation 44 of the Regulations, the Company is providing the e-voting facility to its members holding shares on Tuesday, 13<sup>th</sup> January, 2026, being the cut-off date to exercise their right to vote on all resolutions as set form in the Notice of EOGM. Members can vote either through remote e-voting or e-voting at the EOGM. The detailed Instructions for remote e-voting / e-voting at the time of EOGM is available in the notice of EOGM. The Company has engaged services of Big Share Private Limited to provide remote e-voting facility. The details of remote e-voting are as under:

1. Date of completion of dispatch of Notice of Extra ordinary general meeting: Tuesday, 23<sup>rd</sup> December, 2025.
2. The e-voting period commences on Saturday, 17<sup>th</sup> January, 2026 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, 19<sup>th</sup> January, 2026 at 5.00 p.m. (IST).
3. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date, i.e., 13<sup>th</sup> January, 2026 may obtain the login ID and password by sending at [cs@univastu.com](mailto:cs@univastu.com) or [rajeshm@bigshareonline.com](mailto:rajeshm@bigshareonline.com). However, if you are already registered with Bigshare for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot user Details / Password" option available on <https://ivote.bigshareonline.com>. A member can also use OTP (One time password) based login for casting the votes on the e-voting system of Bigshare private limited. In case shareholders/ investor have any queries regarding E-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and i-Vote e-Voting module available on <https://ivote.bigshareonline.com>, under download section or you can email us to [ivote@bigshareonline.com](mailto:ivote@bigshareonline.com) or call us at: 1800 22 54 22.
4. Alternatively, the Members may also write an e-mail to the Company at [cs@univastu.com](mailto:cs@univastu.com) for any queries / The members are also informed that:
  - a) A member may participate in the Extra Ordinary General Meeting through VC/OAVM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the Extra ordinary General meeting.
  - b) The Members, who have not cast their vote through remote E-voting, can exercise their voting rights at the Extra Ordinary General Meeting through VC/OAVM. The Company would extend the E-Voting facility at the time of Extra Ordinary General Meeting through VC/OAVM; in this regard Members who had cast their vote(s) through remote E-voting will be allowed to vote but shall not be entitled to cast their vote again.
  - c) Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date, i.e., 13<sup>th</sup> January, 2026 shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or e-voting at the Extra Ordinary General Meeting through VC/OAVM
  - d) The manner of registration of e-mail addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company / R & T Agent/DP is available in the Notice of EOGM.

**By order of the Board of Directors**  
**For Univastu India Limited**  
 Sd/-  
**Sakshi Tiwari**  
 Company Secretary

Place: Pune  
 Date : 23.12.2025

**JMJ Fintech Ltd.**  
**JMJ FINTECH LIMITED**  
 Corporate Identification Number : L51102721982PLC029253  
 Registered Office : Shop No. 3, 1st Floor, Adhi Vinayaga Complex, No. 3, Bus Stand, Gopalsamy Temple Street Ganapathy, Coimbatore, Ganapathy, Coimbatore North, Tamil Nadu, India, 641006  
 Telephone : 7395922291; E-mail : [investor@jmfintech.com](mailto:investor@jmfintech.com); Website : [www.jmfintech.com](http://www.jmfintech.com)  
 Contact Person : Mrs. Vidya Damodaran, Company Secretary and Compliance Officer

This advertisement is for information purpose only and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the same meaning assigned to them in the letter of offer dated July 12, 2025 filed with BSE Limited ("BSE") (hereinafter referred to as "Stock Exchange") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

**FIRST AND FINAL CALL MONEY NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES (ISIN : IN9242Q01014) HELD AS ON THE RECORD DATE I.E. FRIDAY, DECEMBER 19, 2025.**

In terms of the Letter of Offer dated July 12, 2025 ("Letter of Offer"), the Company had issued partly paid-up equity shares, on a rights basis, to its existing eligible shareholders at an issue price of ₹ 10.50/- each including a share premium of ₹ 0.50/- per rights equity share, in the ratio of 2 (Two) rights equity shares for every 1 (One) fully paid-up share held by shareholders as on the record date i.e. Friday, July 11, 2025.

In accordance with the terms of the issue as mentioned in the Letter of Offer, the Company had received ₹ 3.15/- (comprising ₹ 3/- towards face value and ₹ 0.15/- towards share premium) per partly paid-up equity share as application money and the Company had issued equity shares were allotted on Thursday, August 21, 2025. The amount of ₹ 7.35/- per partly paid-up equity share (comprising ₹ 7/- towards face value and ₹ 0.35/- towards share premium) is payable on First and Final Call (the "First and Final Call").

The Board of Directors of the Company ("Board") has, at its meeting held on Wednesday, December 03, 2025 decided to make the First and Final Call of ₹ 7.35/- in respect of 2,56,00,000 outstanding Partly Paid-up equity shares of face value ₹ 10 each, issued by the Company on a rights basis, pursuant to the Letter of Offer.

The Board has fixed Friday, December 19, 2025 as the record date ("Record Date") for the purpose of determining the holders of partly paid-up equity shares to whom the notice for the First and Final Call (the "First and Final Call Notice"), has been sent. This Record Date is in compliance of the Record Date to the BSE on Wednesday, December 03, 2025.

Accordingly, in terms of provisions of Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder and the Letter of Offer, the First and Final Call Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares whose e-mail addresses are registered with Company or its Registrar and Transfer Agent ("RTA") or Depository Participant ("DP") as on the Record Date i.e. Friday, December 19, 2025. Further physical copy of First and Final Call Notice along with detailed instructions, has been dispatched through permitted modes at the registered address of those shareholders - a. who has not registered their e-mail address with the Company or its RTA or Depository Participant(s); or b. who has specifically registered their request for the hard copy of the same. The Company has completed the dispatch of the First and Final Call Notice on Tuesday, December 23, 2025. The specimen copy of the First and Final Call Notice is also available on website of the Company at [www.jmfintech.com](http://www.jmfintech.com).

**Details of First and Final Call**

Amount Due	₹ 7.35/- per partly paid-up equity share held by shareholders as on the Record Date.		
Call Payment Period	From	To	Duration
	Wednesday, January 07, 2026	Tuesday, January 27, 2026	21 days
Modes of Payment	Online ASBA - Through an online Portal of the SCSBs. Physical ASBA - By submitting physical application to the Designated Branch of SCSBs 3-in-1 online trading demat bank account		

Please visit <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?do=RecognisedFpi=yes&intmid=34> to refer to the list of existing SCSBs (Self-Certified Syndicate Banks)

In accordance with the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/0154 dated November 11, 2024 shareholders can also make the First and Final Call Money payment by using the facility of linked demat-bank account [3-in-1 type accounts], provided by some of the brokers. Shareholders must log into their demat account and under the relevant section proceed with the payment for First and Final Call Money of JMJ Fintech Limited. Shareholders are requested to check with their respective brokers for exact process to be followed. Shareholders may please note that this payment method can be used only if the concerned broker has made this facility available to their customer. The Company or the Registrar will not be responsible for non-availability of this payment method to the shareholders.

Shareholders are required to make payment of the First and Final Call Money on or before **Tuesday, January 27, 2026**. Please note that, failure to pay the First and Final Call Money, as aforesaid shall render the partly paid-up equity shares of the Company held by them, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

- i. The pending in ISIN-IN9242Q01014 representing partly paid-up equity shares of face value ₹ 10/- each (₹ 3 Paid-up) has been suspended by the Stock Exchange effective from December 19, 2025. Further the ISIN-IN9242Q01014 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
- ii. The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up equity shares under the present ISIN-IN9242Q01016 for the existing fully paid-up equity shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed within seven to eight weeks from the last date of payment of the First and Final Call Money stipulated under this Notice.
- iii. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN-IN9242Q01016, allotted by depositories.
- iv. In case of non-receipt of the First and Final Call Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate First and Final Call Notice to the Registrar or may also download the same from the Company's website : [www.jmfintech.com](http://www.jmfintech.com) or the Registrar's website : [www.purvashare.com](http://www.purvashare.com). In such a case, however, the shareholder need to fill the DP ID-Client ID, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Final Call Money.
- v. The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in this regard may be addressed to:

**PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED**  
 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400 011, Maharashtra, India  
 Tel. : 022-23010771 / 49614132  
 E-mail : [support@purvashare.com](mailto:support@purvashare.com)  
 Website : [www.purvashare.com](http://www.purvashare.com)  
 Contact Person : Ms. Deepali Dhuri  
 SEBI Registration Number : INR000001112

**For, JMJ Fintech Limited**  
 Sd/-  
**Joju Madathumpady Johny**  
 Managing Director  
 DIN : 02712125

Place : Coimbatore  
 Date : December 23, 2025

**TRUST MUTUAL FUND**  
 TRUST Asset Management Private Limited  
 CIN: U65929MH2017PTC3026774  
 Regd. Office: 101, 1st Floor, G - Block, Naman Corporate Park, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 | Phone: 022 - 6274 6000; 1800 267 7878 (Toll-Free No.)  
 E-mail: [investor@trustmf.com](mailto:investor@trustmf.com) | Website: [www.trustmf.com](http://www.trustmf.com)

**Notice cum Addendum No. 66/2025**

**Declaration of Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") option of TRUSTMF Banking & PSU Fund and TRUSTMF Short Duration Fund**  
 NOTICE is hereby given that the Board of Directors of Trust AMC Trustee Private Limited, the Trustee to TRUST Mutual Fund ("the Fund") has approved the declaration of Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") option of TRUSTMF Banking & PSU Fund and TRUSTMF Short Duration Fund (The Schemes"), the particulars of which are as under:

Name of the Scheme	Plan/ Option	Face Value (₹ per Unit)	Quantum of IDCW (₹ per unit)*	Record Date*	NAV as on December 22, 2025 (₹ per unit)
TRUSTMF Banking & PSU Fund	Direct Plan - Quarterly IDCW Option (Payout and Reinvestment)	1000	9	December 26, 2025	1177.0089
	Regular Plan - Quarterly IDCW Option (Payout and Reinvestment)				1148.2857
TRUSTMF Short Duration Fund	Direct Plan - Quarterly IDCW Option (Payout and Reinvestment)	1000	9	December 26, 2025	1166.5038
	Regular Plan - Quarterly IDCW Option (Payout and Reinvestment)				1139.5759

\*As reduced by the amount of applicable statutory levy, if any  
 \*or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day.

**Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the above stated IDCW if any of the scheme(s)/plan/s will fall to the extent of pay-out and statutory levy, if any.**

The Distribution would be paid to unitholders/beneficial owners under the said scheme/plan(s) whose names appear in the Register of Unitholders maintained by the RTA/statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable at the close of business hours as on the record date. The IDCW distribution will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

With regard to Unit holders who have opted for Reinvestment facility under the IDCW option(s), the amount due (net of applicable TDS) will be reinvested, by allotting Units at the ex-Distribution NAV per Unit (adjusted for applicable stamp duty).

For TRUSTMF Investors are requested to take note of the above.

**Unitholders/Investment Manager to TRUST Mutual Fund**  
 Sd/- **Place: Mumbai**  
 Authorised Signatory **Date : December 23, 2025**

**MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.**

**Baroda BNP PARIBAS MUTUAL FUND**  
 Investment Manager: Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC)  
 Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Office: 201(A) 2nd Floor, A wing, Crescenzo, C-38 & 39, G Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai, Maharashtra, India - 400 051. Website: [www.barodabnp-paribasmf.in](http://www.barodabnp-paribasmf.in) | Toll Free: 1800 267 0189

**NOTICE NO. 93/2025**

**Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under the designated Schemes of Baroda BNP Paribas Mutual Fund (the Fund):**  
 Notice is hereby given to all the unitholders of the Schemes that following shall be the rate of distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options of respective plan of the following schemes of Baroda BNP Paribas Mutual Fund with **Monday, December 29, 2025\*** as the Record Date:

Name of the Scheme	Name of Plans/ Options	Face value per unit (in ₹)	NAV per unit as on December 22, 2025	Distribution per unit** (in ₹)
Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10	10.0863	0.05
	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10	10.5693	0.06
	Regular Plan - Quarterly IDCW Option	10	10.1512	0.17
Baroda BNP Paribas Low Duration Fund	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	10	10.6016	0.18
	Defunct Plan - Monthly IDCW Option	10	10.5426	0.06
	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10	10.3208	0.06
Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10	10.4289	0.06
	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10	10.9505	0.07
	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10	13.3737	0.08
Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund	Regular Plan - Quarterly IDCW Option	10	11.2082	0.22
	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	10	13.0925	0.26
	Regular Plan - Quarterly IDCW Option	10	10.5231	0.18
Baroda BNP Paribas Money Market Fund	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	10	10.7457	0.18
	Regular Plan - Monthly IDCW Option	1000	1019.9354	5.94
	Direct Plan - Monthly IDCW Option	1000	1038.6206	6.05
Baroda BNP Paribas Short Duration Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10	10.2756	0.06
	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10	10.5204	0.06
	Regular Plan - Quarterly IDCW Option	10	10.7653	0.18
Baroda BNP Paribas Risk Fund (Scheme has two segregated portfolio)	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	10	11.3499	0.19
	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10	11.2862	0.07
	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10	14.3684	0.09
Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund	Regular Plan - Quarterly IDCW Option	10	11.8363	0.23
	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	10	12.8845	0.25
	Regular Plan - IDCW Option	10	16.6324	0.12
Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund	Direct Plan - IDCW Option	10	19.1301	0.14
	Regular Plan - IDCW Option	10	53.7754	0.40
Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund	Direct Plan - IDCW Option	10	57.3714	0.43
	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	10	11.0169	0.19

\*or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day.

# The Distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending on the distributable surplus available on the Record Date.

\*\*Net distribution amount will be paid to the unitholders under respective categories after deducting applicable taxes, if any.

For the units held in physical form, amount of distribution will be paid to all unit holders whose names appear in the records of the Registrar at the close of business hours on the record date and for units held in demat form, the names appearing in the beneficial owners master with the Depository as on the record date shall be considered.

**Pursuant to distribution under IDCW, NAV of the IDCW option of the scheme(s) would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).**

**For Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited**  
 (Investment Manager to Baroda BNP Paribas Mutual Fund)  
 Sd/- **Date : December 23, 2025**  
 Authorised Signatory **Place : Mumbai**

**MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.**

**Bata India**  
**BATA INDIA LIMITED**  
 CIN: L19201WB1931PLC007261  
 Registered Office: 270B, Camac Street, 1<sup>st</sup> Floor, Kolkata - 700016, West Bengal  
 Telephone: +91 33 2289 5796 | Fax: +91 33 2289 5748  
 E-mail: [share.dept@bata.com](mailto:share.dept@bata.com) | Website: [www.bata.in](http://www.bata.in)

**SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE MENT OF SHARE TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES**

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, the Company has initiated a special window for re-lodgement of share transfer requests which were initially lodged before April 1, 2019 and were rejected/ returned/ not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise. The special window has opened from **July 7, 2025 till January 6, 2026**. Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) - MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) C 101/247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra, 400083. Shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window.

**For BATA INDIA LIMITED**  
 Sd/-  
**NITIN BAGARIA**  
 Place : Gurugram  
 Date : December 23, 2025 **Company Secretary & Compliance Officer**

**TRIVENI TURBINES**  
**TRIVENI TURBINE LIMITED**  
 CIN: L29110UP1995PLC041834  
 Registered & Corporate Office: 401, BPT Capital City, Sector 94, Noida, Uttar Pradesh - 201 301  
 Website: [www.triveniturbines.com](http://www.triveniturbines.com), E-mail: [cs.compliance@triveniturbines.com](mailto:cs.compliance@triveniturbines.com), Phone: +91 120 4848000

**Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of Triveni Turbine Limited**

Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025 and in order to secure the rights of investors in the securities which were purchased by them, shareholders of Triveni Turbine Limited ("Company") are hereby informed that a Special Window has been opened for a period of 6 months from July 7, 2025 to January 6, 2026 for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to April 1, 2019 and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise. Eligible shareholders may submit their transfer deeds along with requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent at Rankit Assignments Limited, Unit: Triveni Turbine Limited, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, email: [rtta@rankit.com](mailto:rtta@rankit.com). During this period, the securities that are re-lodged for transfer shall be issued only in dematerialized mode and due process shall be followed for such transfer-cum-dematerialization requests. The details regarding the opening of this special window are also disseminated on the website of the Company at [www.triveniturbines.com](http://www.triveniturbines.com).

This notice is also available on the Company's website at [www.triveniturbines.com](http://www.triveniturbines.com) and the websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

**For Triveni Turbine Limited**  
 Sd/-  
**Pulkit Bhasin**  
 Date : December 24, 2025  
 Place: Noida (U.P.) **Company Secretary**  
 M. No. A27686

**Fortis**  
**FORTIS HEALTHCARE LIMITED**  
 Corporate Office Number: L85110PB1996PLC045933  
 Registered Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase - VIII, Mohali - 160082, Punjab  
 Tel.: +91-172-4692222, Fax: +91-172-5086221  
 Email ID: [secretarial@fortishealthcare.com](mailto:secretarial@fortishealthcare.com), Website: [www.fortishealthcare.com](http://www.fortishealthcare.com)

**NOTICE OF POSTAL BALLOT**

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standards on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India (SS-2) each as amended and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs for holding general meetings/conducting postal ballot process, read with various General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs bearing Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated May 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated June 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023, 09/2024 dated September 19, 2024, 03/2025 dated September 22, 2025, and any other circulars issued from time to time by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), (together referred as "MCA Circulars"), the Company has on Tuesday, December 23, 2025 completed the electronic transmission of Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form to the Members whose email id's are registered with the Company or with the National Securities Depository Limited ("NSDL")/ Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") ("Depositories") as on Friday, December 19, 2025 for seeking the consent of Members through e-voting as detailed in the Postal Ballot Notice. The Company in order to facilitate shareholders to receive this notice and cast their vote by electronic means (e-voting), has made arrangement with KFin Technologies Limited (formerly known as KFin Technologies Private Limited), Registrar & Share Transfer Agent for registration of email addresses in terms of the MCA Circulars. The process for registration of email addresses and manner of voting by the shareholder holding shares in physical form is detailed in the Postal Ballot Notice. The Company has subscribed to email updation facility from National Securities Depository Limited (NSDL), wherein NSDL have sent messages (SMS) to the shareholders of the Company as per their records on the registered mobile numbers to enable them to register their email ID's.

The Company has appointed Mr. Mukesh Agarwal, Company Secretary in Whole-time Practice (C.P. No. 3851) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process and also to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The Voting rights of Members shall be reckoned on the cut-off date i.e. **Friday, December 19, 2025**. Members are requested to note that facility of voting by electronic means (e-voting) is available to only those members whose name is recorded in the register of members / register of beneficial owners as on the cut off date maintained by the Depositories to participate in the e-voting. A person who is not a member of the Company as on **Friday, December 19, 2025** should receive this notice for information purposes only. Members can cast their e-votes at the website <https://evoting.kfintech.com> and that of National Stock Exchange of India Limited - [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and BSE Limited - [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). In case of non-receipt of Postal Ballot form, a member can download the Postal Ballot Form from the link <https://evoting.kfintech.com> or [www.fortishealthcare.com](http://www.fortishealthcare.com) and obtain a duplicate copy thereof.

Any query or grievance in relation to voting by postal ballot including voting by electronic means may be addressed to Ms. Rajitha C, Vice President, Toll Free Number 1800 309 4001 at [ainward.ris@kfintech.com](mailto:ainward.ris@kfintech.com), at KFin Technologies Limited, Selenium Building B, Plot No-31-32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Telangana State - India.

**For Fortis Healthcare Limited**  
 Sd/-  
**Satyendra Chauhan**  
 Date : December 23, 2025  
 Place : Gurugram **Company Secretary**  
 Membership No.:

This advertisement is for information purposes only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated November 28, 2025 (the "Letter of Offer" filed with stock exchanges namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited (the "NSE") and SEBI.



# PATEL ENGINEERING LIMITED

Our Company was incorporated as 'Patel Engineering Company Limited', a public limited company under the Indian Companies Act, VII of 1913, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai on April 2, 1949. Pursuant to a resolution of our Shareholders dated September 30, 1999, the name of our Company was changed to 'Patel Engineering Limited' and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on December 9, 1999. For details of changes in the name of our Company, see "General Information" on page 44 of the Letter of Offer.

Corporate Identity Number: L99999MH1949PLC007039

Registered Office: Patel Estate SV Road, Jogeshwari (West), Mumbai – 400 102, Maharashtra, India. • Tel: +91 22-6982 3500/2676 7500

Contact Person: Shobha Shetty, Company Secretary and Compliance Officer

Tel: +91 22-6982 3500/2676 7513 • E-mail: investors@pateleng.com • Website: www.pateleng.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY: JANKY RUPEN PATEL,

PRAHAM INDIA LLP AND RAAHITYA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED

ISSUE OF 14,77,65,820 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 27.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 26.00 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 3,989.68 MILLION\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 7 RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 40 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS DECEMBER 4, 2025 ("RECORD DATE") ("ISSUE"). SEE "ISSUE INFORMATION" ON PAGE 70 OF THE LETTER OF OFFER.

## BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Patel Engineering Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue which opened for subscription on Friday, December 12, 2025, and closed on Friday, December 19, 2025 and the last date for on market renunciation of Rights Entitlements was December 16, 2025. Out of the total 39,226 Applications for 17,06,23,768 Rights Equity Shares, 1,069 Applications for 8,44,907 Rights Equity Shares were rejected due to technical reason as disclosed in the Letter of Offer.

The total number of valid applications received was 38,157 Application for 16,97,78,861 Rights Equity Shares, which was 114.90% of the issue size. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of allotment finalized on December 22, 2025, by the Company in consultation with NSE, the Designated Stock Exchange for the Issue and MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited), the Registrar to the Issue. The Allotment Committee of the Board of Directors, by way of resolution passed on December 22, 2025, allotted 14,77,65,820 Rights Equity Shares to the successful applicants. All valid applications after technical rejections have been considered for allotment. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance.

### 1. Basis of Allotment

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received		No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)		No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)		Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)	
	Number	%	Number	Value (Rs.)	Number	Value (Rs.)	Number	Value (Rs.)
Non Renounees	37,928	99.31	3,74,89,656	4,03,94,36,898	9,33,49,620	3,53,26,60,452	13,08,39,276	88.55
Renounees	271	0.69	2,10,14,994	56,74,04,838	0	0	45,70,16,688	11.45
<b>Total</b>	<b>38,199</b>	<b>100</b>	<b>5,44,16,200</b>	<b>4,60,68,41,736</b>	<b>9,33,49,620</b>	<b>3,98,96,77,140</b>	<b>14,77,65,820</b>	<b>100</b>

### 2. Information Regarding Applications received (including ASBA applications received):

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for			Equity Shares Allotted		
	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Non Renounees	38,955	99.31	14,96,08,774	4,03,94,36,898	87.68	13,08,39,276	3,53,26,60,452	88.55
Renounees*	271	0.69	2,10,14,994	56,74,04,838	12.32	1,69,26,544	45,70,16,688	11.45
<b>Total</b>	<b>39,226</b>	<b>100</b>	<b>17,06,23,768</b>	<b>4,60,68,41,736</b>	<b>100</b>	<b>14,77,65,820</b>	<b>3,98,96,77,140</b>	<b>100</b>

\*the investors (identified based on DPID & Client Id) whose names do not appear in the list of Eligible Equity as Shareholders on the record date and who hold the REs as on the Issue Closing Date and have applied in the Issue are considered the Renounees.

**Intimation for Allotment/refund/rejections:** The instruction for unblocking of funds were issued to Self-Certified Syndicate Banks (SCSBs) and the listing applications were filed with both, the BSE and NSE on December 22, 2025. The dispatch of allotment advice cum unblocking intimation to the investors, as applicable, will be done after executing the corporate action for credit of equity shares into the respective demat accounts of the successful allottees on or about December 23, 2025, subject to grant of Listing Approval by BSE and NSE. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE and NSE, the Rights Equity Shares Allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE and NSE with effect from December 24, 2025. The Rights Equity Shares will be traded under the same ISIN as equity shares (i.e. INE244B01030).

**INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.**

**DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that submission of the Letter of Offer to NSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE Limited; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the full text "Disclaimer clause of NSE" beginning on page no. 71 of the Letter of Offer.

**DISCLAIMER CLAUSE OF BSE:** It is to be distinctly understood that submission of the Letter of Offer to BSE Limited should not for any reason be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the full text "Disclaimer clause of BSE" beginning on page no. 71 of the Letter of Offer.

The investors may contact the Registrar to the Issue in case of any query(ies)/grievance(s) including for credit of rights equity shares and unblocking of funds.

### REGISTRAR TO THE ISSUE



MUFG Intime India Private Limited  
(formerly Link Intime India Private Limited)

Registered Office: C-101, Embassy 247, L. B. S. Marg,

Vikhroli West, Mumbai - 400 083, Maharashtra, India

Telephone: +91 81081 14949

Email: patelengineering.rights2025@in.mpms.mufg.com

Website: www.in.mpms.mufg.com

Contact person: Shanti Gopalakrishnan

SEBI Registration No.: INR000004058

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE, THE RIGHTS EQUITY SHARES, OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

On behalf of Board of Directors

For Patel Engineering Limited

Date : December 23, 2025

Place : Mumbai

Shobha Shetty

Company Secretary and Compliance Officer

Patel Engineering Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, a rights issue of its Equity Shares and has in this regard filed a Letter of Offer dated November 28, 2025 with Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on the website of the Company at <https://www.pateleng.com/> and on the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and NSE India at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). An investment in equity shares involves a high degree of risk. Prospective investors should carefully consider all the information in the Letter of Offer and for details relating to the same, please see section titled "Risk Factors" beginning on page 19 of the Letter of Offer.

The Rights entitlement and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Equity Shares are being offered and sold in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act to eligible equity shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under laws of such jurisdictions.

**HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED**  
 17-ए, इंदौरा इण्डिया एस्टेट लिमिटेड, इंदौरा, मध्य प्रदेश - 490 002, भारत  
 ई-मेल: [auction@hindujahousingfinance.com](mailto:auction@hindujahousingfinance.com)  
 संपर्क: संपर्क नं. 0448889802 | फ़ोन: 9999988881

**कच्चा सूचना (अपलॉटमेंट के लिए)**

कच्चा सूचना (अपलॉटमेंट के लिए) 2025 का 1. 1. श्री. जयशंकर शर्मा, 2. श्री. जयशंकर शर्मा, 3. श्री. जयशंकर शर्मा, 4. श्री. जयशंकर शर्मा, 5. श्री. जयशंकर शर्मा, 6. श्री. जयशंकर शर्मा, 7. श्री. जयशंकर शर्मा, 8. श्री. जयशंकर शर्मा, 9. श्री. जयशंकर शर्मा, 10. श्री. जयशंकर शर्मा, 11. श्री. जयशंकर शर्मा, 12. श्री. जयशंकर शर्मा, 13. श्री. जयशंकर शर्मा, 14. श्री. जयशंकर शर्मा, 15. श्री. जयशंकर शर्मा, 16. श्री. जयशंकर शर्मा, 17. श्री. जयशंकर शर्मा, 18. श्री. जयशंकर शर्मा, 19. श्री. जयशंकर शर्मा, 20. श्री. जयशंकर शर्मा, 21. श्री. जयशंकर शर्मा, 22. श्री. जयशंकर शर्मा, 23. श्री. जयशंकर शर्मा, 24. श्री. जयशंकर शर्मा, 25. श्री. जयशंकर शर्मा, 26. श्री. जयशंकर शर्मा, 27. श्री. जयशंकर शर्मा, 28. श्री. जयशंकर शर्मा, 29. श्री. जयशंकर शर्मा, 30. श्री. जयशंकर शर्मा, 31. श्री. जयशंकर शर्मा, 32. श्री. जयशंकर शर्मा, 33. श्री. जयशंकर शर्मा, 34. श्री. जयशंकर शर्मा, 35. श्री. जयशंकर शर्मा, 36. श्री. जयशंकर शर्मा, 37. श्री. जयशंकर शर्मा, 38. श्री. जयशंकर शर्मा, 39. श्री. जयशंकर शर्मा, 40. श्री. जयशंकर शर्मा, 41. श्री. जयशंकर शर्मा, 42. श्री. जयशंकर शर्मा, 43. श्री. जयशंकर शर्मा, 44. श्री. जयशंकर शर्मा, 45. श्री. जयशंकर शर्मा, 46. श्री. जयशंकर शर्मा, 47. श्री. जयशंकर शर्मा, 48. श्री. जयशंकर शर्मा, 49. श्री. जयशंकर शर्मा, 50. श्री. जयशंकर शर्मा, 51. श्री. जयशंकर शर्मा, 52. श्री. जयशंकर शर्मा, 53. श्री. जयशंकर शर्मा, 54. श्री. जयशंकर शर्मा, 55. श्री. जयशंकर शर्मा, 56. श्री. जयशंकर शर्मा, 57. श्री. जयशंकर शर्मा, 58. श्री. जयशंकर शर्मा, 59. श्री. जयशंकर शर्मा, 60. श्री. जयशंकर शर्मा, 61. श्री. जयशंकर शर्मा, 62. श्री. जयशंकर शर्मा, 63. श्री. जयशंकर शर्मा, 64. श्री. जयशंकर शर्मा, 65. श्री. जयशंकर शर्मा, 66. श्री. जयशंकर शर्मा, 67. श्री. जयशंकर शर्मा, 68. श्री. जयशंकर शर्मा, 69. श्री. जयशंकर शर्मा, 70. श्री. जयशंकर शर्मा, 71. श्री. जयशंकर शर्मा, 72. श्री. जयशंकर शर्मा, 73. श्री. जयशंकर शर्मा, 74. श्री. जयशंकर शर्मा, 75. श्री. जयशंकर शर्मा, 76. श्री. जयशंकर शर्मा, 77. श्री. जयशंकर शर्मा, 78. श्री. जयशंकर शर्मा, 79. श्री. जयशंकर शर्मा, 80. श्री. जयशंकर शर्मा, 81. श्री. जयशंकर शर्मा, 82. श्री. जयशंकर शर्मा, 83. श्री. जयशंकर शर्मा, 84. श्री. जयशंकर शर्मा, 85. श्री. जयशंकर शर्मा, 86. श्री. जयशंकर शर्मा, 87. श्री. जयशंकर शर्मा, 88. श्री. जयशंकर शर्मा, 89. श्री. जयशंकर शर्मा, 90. श्री. जयशंकर शर्मा, 91. श्री. जयशंकर शर्मा, 92. श्री. जयशंकर शर्मा, 93. श्री. जयशंकर शर्मा, 94. श्री. जयशंकर शर्मा, 95. श्री. जयशंकर शर्मा, 96. श्री. जयशंकर शर्मा, 97. श्री. जयशंकर शर्मा, 98. श्री. जयशंकर शर्मा, 99. श्री. जयशंकर शर्मा, 100. श्री. जयशंकर शर्मा, 101. श्री. जयशंकर शर्मा, 102. श्री. जयशंकर शर्मा, 103. श्री. जयशंकर शर्मा, 104. श्री. जयशंकर शर्मा, 105. श्री. जयशंकर शर्मा, 106. श्री. जयशंकर शर्मा, 107. श्री. जयशंकर शर्मा, 108. श्री. जयशंकर शर्मा, 109. श्री. जयशंकर शर्मा, 110. श्री. जयशंकर शर्मा, 111. श्री. जयशंकर शर्मा, 112. श्री. जयशंकर शर्मा, 113. श्री. जयशंकर शर्मा, 114. श्री. जयशंकर शर्मा, 115. श्री. जयशंकर शर्मा, 116. श्री. जयशंकर शर्मा, 117. श्री. जयशंकर शर्मा, 118. श्री. जयशंकर शर्मा, 119. श्री. जयशंकर शर्मा, 120. श्री. जयशंकर शर्मा, 121. श्री. जयशंकर शर्मा, 122. श्री. जयशंकर शर्मा, 123. श्री. जयशंकर शर्मा, 124. श्री. जयशंकर शर्मा, 125. श्री. जयशंकर शर्मा, 126. श्री. जयशंकर शर्मा, 127. श्री. जयशंकर शर्मा, 128. श्री. जयशंकर शर्मा, 129. श्री. जयशंकर शर्मा, 130. श्री. जयशंकर शर्मा, 131. श्री. जयशंकर शर्मा, 132. श्री. जयशंकर शर्मा, 133. श्री. जयशंकर शर्मा, 134. श्री. जयशंकर शर्मा, 135. श्री. जयशंकर शर्मा, 136. श्री. जयशंकर शर्मा, 137. श्री. जयशंकर शर्मा, 138. श्री. जयशंकर शर्मा, 139. श्री. जयशंकर शर्मा, 140. श्री. जयशंकर शर्मा, 141. श्री. जयशंकर शर्मा, 142. श्री. जयशंकर शर्मा, 143. श्री. जयशंकर शर्मा, 144. श्री. जयशंकर शर्मा, 145. श्री. जयशंकर शर्मा, 146. श्री. जयशंकर शर्मा, 147. श्री. जयशंकर शर्मा, 148. श्री. जयशंकर शर्मा, 149. श्री. जयशंकर शर्मा, 150. श्री. जयशंकर शर्मा, 151. श्री. जयशंकर शर्मा, 152. श्री. जयशंकर शर्मा, 153. श्री. जयशंकर शर्मा, 154. श्री. जयशंकर शर्मा, 155. श्री. जयशंकर शर्मा, 156. श्री. जयशंकर शर्मा, 157. श्री. जयशंकर शर्मा, 158. श्री. जयशंकर शर्मा, 159. श्री. जयशंकर शर्मा, 160. श्री. जयशंकर शर्मा, 161. श्री. जयशंकर शर्मा, 162. श्री. जयशंकर शर्मा, 163. श्री. जयशंकर शर्मा, 164. श्री. जयशंकर शर्मा, 165. श्री. जयशंकर शर्मा, 166. श्री. जयशंकर शर्मा, 167. श्री. जयशंकर शर्मा, 168. श्री. जयशंकर शर्मा, 169. श्री. जयशंकर शर्मा, 170. श्री. जयशंकर शर्मा, 171. श्री. जयशंकर शर्मा, 172. श्री. जयशंकर शर्मा, 173. श्री. जयशंकर शर्मा, 174. श्री. जयशंकर शर्मा, 175. श्री. जयशंकर शर्मा, 176. श्री. जयशंकर शर्मा, 177. श्री. जयशंकर शर्मा, 178. श्री. जयशंकर शर्मा, 179. श्री. जयशंकर शर्मा, 180. श्री. जयशंकर शर्मा, 181. श्री. जयशंकर शर्मा, 182. श्री. जयशंकर शर्मा, 183. श्री. जयशंकर शर्मा, 184. श्री. जयशंकर शर्मा, 185. श्री. जयशंकर शर्मा, 186. श्री. जयशंकर शर्मा, 187. श्री. जयशंकर शर्मा, 188. श्री. जयशंकर शर्मा, 189. श्री. जयशंकर शर्मा, 190. श्री. जयशंकर शर्मा, 191. श्री. जयशंकर शर्मा, 192. श्री. जयशंकर शर्मा, 193. श्री. जयशंकर शर्मा, 194. श्री. जयशंकर शर्मा, 195. श्री. जयशंकर शर्मा, 196. श्री. जयशंकर शर्मा, 197. श्री. जयशंकर शर्मा, 198. श्री. जयशंकर शर्मा, 199. श्री. जयशंकर शर्मा, 200. श्री. जयशंकर शर्मा, 201. श्री. जयशंकर शर्मा, 202. श्री. जयशंकर शर्मा, 203. श्री. जयशंकर शर्मा, 204. श्री. जयशंकर शर्मा, 205. श्री. जयशंकर शर्मा, 206. श्री. जयशंकर शर्मा, 207. श्री. जयशंकर शर्मा, 208. श्री. जयशंकर शर्मा, 209. श्री. जयशंकर शर्मा, 210. श्री. जयशंकर शर्मा, 211. श्री. जयशंकर शर्मा, 212. श्री. जयशंकर शर्मा, 213. श्री. जयशंकर शर्मा, 214. श्री. जयशंकर शर्मा, 215. श्री. जयशंकर शर्मा, 216. श्री. जयशंकर शर्मा, 217. श्री. जयशंकर शर्मा, 218. श्री. जयशंकर शर्मा, 219. श्री. जयशंकर शर्मा, 220. श्री. जयशंकर शर्मा, 221. श्री. जयशंकर शर्मा, 222. श्री. जयशंकर शर्मा, 223. श्री. जयशंकर शर्मा, 224. श्री. जयशंकर शर्मा, 225. श्री. जयशंकर शर्मा, 226. श्री. जयशंकर शर्मा, 227. श्री. जयशंकर शर्मा, 228. श्री. जयशंकर शर्मा, 229. श्री. जयशंकर शर्मा, 230. श्री. जयशंकर शर्मा, 231. श्री. जयशंकर शर्मा, 232. श्री. जयशंकर शर्मा, 233. श्री. जयशंकर शर्मा, 234. श्री. जयशंकर शर्मा, 235. श्री. जयशंकर शर्मा, 236. श्री. जयशंकर शर्मा, 237. श्री. जयशंकर शर्मा, 238. श्री. जयशंकर शर्मा, 239. श्री. जयशंकर शर्मा, 240. श्री. जयशंकर शर्मा, 241. श्री. जयशंकर शर्मा, 242. श्री. जयशंकर शर्मा, 243. श्री. जयशंकर शर्मा, 244. श्री. जयशंकर शर्मा, 245. श्री. जयशंकर शर्मा, 246. श्री. जयशंकर शर्मा, 247. श्री. जयशंकर शर्मा, 248. श्री. जयशंकर शर्मा, 249. श्री. जयशंकर शर्मा, 250. श्री. जयशंकर शर्मा, 251. श्री. जयशंकर शर्मा, 252. श्री. जयशंकर शर्मा, 253. श्री. जयशंकर शर्मा, 254. श्री. जयशंकर शर्मा, 255. श्री. जयशंकर शर्मा, 256. श्री. जयशंकर शर्मा, 257. श्री. जयशंकर शर्मा, 258. श्री. जयशंकर शर्मा, 259. श्री. जयशंकर शर्मा, 260. श्री. जयशंकर शर्मा, 261. श्री. जयशंकर शर्मा, 262. श्री. जयशंकर शर्मा, 263. श्री. जयशंकर शर्मा, 264. श्री. जयशंकर शर्मा, 265. श्री. जयशंकर शर्मा, 266. श्री. जयशंकर शर्मा, 267. श्री. जयशंकर शर्मा, 268. श्री. जयशंकर शर्मा, 269. श्री. जयशंकर शर्मा, 270. श्री. जयशंकर शर्मा, 271. श्री. जयशंकर शर्मा, 272. श्री. जयशंकर शर्मा, 273. श्री. जयशंकर शर्मा, 274. श्री. जयशंकर शर्मा, 275. श्री. जयशंकर शर्मा, 276. श्री. जयशंकर शर्मा, 277. श्री. जयशंकर शर्मा, 278. श्री. जयशंकर शर्मा, 279. श्री. जयशंकर शर्मा, 280. श्री. जयशंकर शर्मा, 281. श्री. जयशंकर शर्मा, 282. श्री. जयशंकर शर्मा, 283. श्री. जयशंकर शर्मा, 284. श्री. जयशंकर शर्मा, 285. श्री. जयशंकर शर्मा, 286. श्री. जयशंकर शर्मा, 287. श्री. जयशंकर शर्मा, 288. श्री. जयशंकर शर्मा, 289. श्री. जयशंकर शर्मा, 290. श्री. जयशंकर शर्मा, 291. श्री. जयशंकर शर्मा, 292. श्री. जयशंकर शर्मा, 293. श्री. जयशंकर शर्मा, 294. श्री. जयशंकर शर्मा, 295. श्री. जयशंकर शर्मा, 296. श्री. जयशंकर शर्मा, 297. श्री. जयशंकर शर्मा, 298. श्री. जयशंकर शर्मा, 299. श्री. जयशंकर शर्मा, 300. श्री. जयशंकर शर्मा, 301. श्री. जयशंकर शर्मा, 302. श्री. जयशंकर शर्मा, 303. श्री. जयशंकर शर्मा, 304. श्री. जयशंकर शर्मा, 305. श्री. जयशंकर शर्मा, 306. श्री. जयशंकर शर्मा, 307. श्री. जयशंकर शर्मा, 308. श्री. जयशंकर शर्मा, 309. श्री. जयशंकर शर्मा, 310. श्री. जयशंकर शर्मा, 311. श्री. जयशंकर शर्मा, 312. श्री. जयशंकर शर्मा, 313. श्री. जयशंकर शर्मा, 314. श्री. जयशंकर शर्मा, 315. श्री. जयशंकर शर्मा, 316. श्री. जयशंकर शर्मा, 317. श्री. जयशंकर शर्मा, 318. श्री. जयशंकर शर्मा, 319. श्री. जयशंकर शर्मा, 320. श्री. जयशंकर शर्मा, 321. श्री. जयशंकर शर्मा, 322. श्री. जयशंकर शर्मा, 323. श्री. जयशंकर शर्मा, 324. श्री. जयशंकर शर्मा, 325. श्री. जयशंकर शर्मा, 326. श्री. जयशंकर शर्मा, 327. श्री. जयशंकर शर्मा, 328. श्री. जयशंकर शर्मा, 329. श्री. जयशंकर शर्मा, 330. श्री. जयशंकर शर्मा, 331. श्री. जयशंकर शर्मा, 332. श्री. जयशंकर शर्मा, 333. श्री. जयशंकर शर्मा, 334. श्री. जयशंकर शर्मा, 335. श्री. जयशंकर शर्मा, 336. श्री. जयशंकर शर्मा, 337. श्री. जयशंकर शर्मा, 338. श्री. जयशंकर शर्मा, 339. श्री. जयशंकर शर्मा, 340. श्री. जयशंकर शर्मा, 341. श्री. जयशंकर शर्मा, 342. श्री. जयशंकर शर्मा, 343. श्री. जयशंकर शर्मा, 344. श्री. जयशंकर शर्मा, 345. श्री. जयशंकर शर्मा, 346. श्री. जयशंकर शर्मा, 347. श्री. जयशंकर शर्मा, 348. श्री. जयशंकर शर्मा, 349. श्री. जयशंकर शर्मा, 350. श्री. जयशंकर शर्मा, 351. श्री. जयशंकर शर्मा, 352. श्री. जयशंकर शर्मा, 353. श्री. जयशंकर शर्मा, 354. श्री. जयशंकर शर्मा, 355. श्री. जयशंकर शर्मा, 356. श्री. जयशंकर शर्मा, 357. श्री. जयशंकर शर्मा, 358. श्री. जयशंकर शर्मा, 359. श्री. जयशंकर शर्मा, 360. श्री. जयशंकर शर्मा, 361. श्री. जयशंकर शर्मा, 362. श्री. जयशंकर शर्मा, 363. श्री. जयशंकर शर्मा, 364. श्री. जयशंकर शर्मा, 365. श्री. जयशंकर शर्मा, 366. श्री. जयशंकर शर्मा, 367. श्री. जयशंकर शर्मा, 368. श्री. जयशंकर शर्मा, 369. श्री. जयशंकर शर्मा, 370. श्री. जयशंकर शर्मा, 371. श्री. जयशंकर शर्मा, 372. श्री. जयशंकर शर्मा, 373. श्री. जयशंकर शर्मा, 374. श्री. जयशंकर शर्मा, 375. श्री. जयशंकर शर्मा, 376. श्री. जयशंकर शर्मा, 377. श्री. जयशंकर शर्मा, 378. श्री. जयशंकर शर्मा, 379. श्री. जयशंकर शर्मा, 380. श्री. जयशंकर शर्मा, 381. श्री. जयशंकर शर्मा, 382. श्री. जयशंकर शर्मा, 383. श्री. जयशंकर शर्मा, 384. श्री. जयशंकर शर्मा, 385. श्री. जयशंकर शर्मा, 386. श्री. जयशंकर शर्मा, 387. श्री. जयशंकर शर्मा, 388. श्री. जयशंकर शर्मा, 389. श्री. जयशंकर शर्मा, 390. श्री. जयशंकर शर्मा, 391. श्री. जयशंकर शर्मा, 392. श्री. जयशंकर शर्मा, 393. श्री. जयशंकर शर्मा, 394. श्री. जयशंकर शर्मा, 395. श्री. जयशंकर शर्मा, 396. श्री. जयशंकर शर्मा, 397. श्री. जयशंकर शर्मा, 398. श्री. जयशंकर शर्मा, 399. श्री. जयशंकर शर्मा, 400. श्री. जयशंकर शर्मा, 401. श्री. जयशंकर शर्मा, 402. श्री. जयशंकर शर्मा, 403. श्री. जयशंकर शर्मा, 404. श्री. जयशंकर शर्मा, 405. श्री. जयशंकर शर्मा, 406. श्री. जयशंकर शर्मा, 407. श्री. जयशंकर शर्मा, 408. श्री. जयशंकर शर्मा, 409. श्री. जयशंकर शर्मा, 410. श्री. जयशंकर शर्मा, 411. श्री. जयशंकर शर्मा, 412. श्री. जयशंकर शर्मा, 413. श्री. जयशंकर शर्मा, 414. श्री. जयशंकर शर्मा, 415. श्री. जयशंकर शर्मा, 416. श्री. जयशंकर शर्मा, 417. श्री. जयशंकर शर्मा, 418. श्री. जयशंकर शर्मा, 419. श्री. जयशंकर शर्मा, 420. श्री. जयशंकर शर्मा, 421. श्री. जयशंकर शर्मा, 422. श्री. जयशंकर शर्मा, 423. श्री. जयशंकर शर्मा, 424. श्री. जयशंकर शर्मा, 425. श्री. जयशंकर शर्मा, 426. श्री. जयशंकर शर्मा, 427. श्री. जयशंकर शर्मा, 428. श्री. जयशंकर शर्मा, 429. श्री. जयशंकर शर्मा, 430. श्री. जयशंकर शर्मा, 431. श्री. जयशंकर शर्मा, 432. श्री. जयशंकर शर्मा, 433. श्री. जयशंकर शर्मा, 434. श्री. जयशंकर शर्मा, 435. श्री. जयशंकर शर्मा, 436. श्री. जयशंकर शर्मा, 437. श्री. जयशंकर शर्मा, 438. श्री. जयशंकर शर्मा, 439. श्री. जयशंकर शर्मा, 440. श्री. जयशंकर शर्मा, 441. श्री. जयशंकर शर्मा, 442. श्री. जयशंकर शर्मा, 443. श्री. जयशंकर शर्मा, 444. श्री. जयशंकर शर्मा, 445. श्री. जयशंकर शर्मा, 446. श्री. जयशंकर शर्मा, 447. श्री. जयशंकर शर्मा, 448. श्री. जयशंकर शर्मा, 449. श्री. जयशंकर शर्मा, 450. श्री. जयशंकर शर्मा, 451. श्री. जयशंकर शर्मा, 452. श्री. जयशंकर शर्मा, 453. श्री. जयशंकर शर्मा, 454. श्री. जयशंकर शर्मा, 455. श्री. जयशंकर शर्मा,



24 மணி நேர குடிநீர் திட்டம்

சங்கம் ரவண்டானா பகுதியில் பிரதான குழாய் பணிகள்: கமிஷனர் சிவகுரு பிரபாகர் ஆய்வு

கோவை, டிச. 24- கோவை மாநகராட்சியின் 24 மணி நேர குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ், திருச்சி சாலை-சங்கம் ரவண்டானா பகுதியில் குடிநீர் எடுத்துச் செல்லும் பிரதான குழாய் பணிக்கும் பணிகளை மாநகராட்சி கமிஷனர் மா.சிவகுரு பிரபாகர் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

தொட்டிகளின் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. 75 கி.மீ. நீளமுள்ள பிரதான நீருட்டும் குழாய்களில் 66.25 கி.மீ. வரை பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. 1,798 கி.மீ. பகிர்மான குழாய்கள் பதிக் குழாய்களில் 1,747.63 கி.மீ. வரை முடிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கு குடிநீர் எடுத்துச் செல்லும் பிரதான குழாய் பதிக் குழாய்களில் விடுபட்ட சுமார் 300 மீட்டர் தூரத்திற்கு, தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை அனுமதியுடன் சங்கம் ரவண்டானா பகுதியில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பொதுமக்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் இடையூறு ஏற்படாத வகையில், கடந்த 22ந் தேதி இரவு முதல் இந்தப் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன.



சேலம் மாநகராட்சி அல்தம்பட்டி மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட முள்ளுவாடிகேட்டு பகுதியில் நெடுஞ்சாலைத்துறை மூலம் பாலம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. பாலத்தின் தூண்கள் அமைப்பதற்கு இடையூறாக உள்ள குடிநீர் குழாய் பைப்புகளை மாற்றி அமைக்கும் பணியினை கமிஷனர் மா.இளங்கோவன் நேரில் பார்வையிட்டு பணிகளை வினாறுத்து முடிக்க பொறியாளருக்கு அறிவுறுத்தினார்.

திட்டமலை அரசு கலை கல்லூரியில் போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு

ஈரோடு, டிச. 24- நம்பியூர் திட்டமலை அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் போதை பொருள் மற்றும் தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வு பயிலரங்கம் கல்லூரி கலையரங்கத்தில் நடைபெற்றது.



இவ்விழாவில் தமிழ் துறை கொள்கை விரிவுரையாளர் சரஸ்வதி வரவேற்புரை வழங்கினார்கள். இந்திகழ்ச்சிக்கு கல்லூரியின் முதல்வர் (பொறுப்பு) தமிழ்மணி தலைமை ஏற்று தலைமை உரை வழங்கினார்கள்.

ஒருங்கிணைப்பாளர் தீபலட்சுமி இந்திகழ்ச்சிக்கு உரையாற்றினார். இதை நிகழ்த்தும் தனிப்பட்ட துறை ஆசிரியர்கள் சரஸ்வதி, மகேந்திரன் மற்றும் நிஷாந்தி தொகுத்து வழங்கினார்கள்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் டிசம்பர் 27, 28, ஜனவரி 3, 4 தேதிகளில் வாக்காளர் பட்டியல் பெயர் சேர்ப்பு முகாம்

கிருஷ்ணகிரி, டிச. 24- கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப்பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

பாலினத்தவர் என மொத்தம் 15,06,077 வாக்காளர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர். 1.1.2026யை தகுதிநாளாகக் கொண்டு 18 வயது நிரம்பியவர்கள் படிவம் 6 உடன் உறுதிமொழி படிவத்தை சமர்ப்பித்து தங்களது பெயரை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து தங்களது பெயரினை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். டிசம்பர் 27ந் தேதி சனிக்கிழமை, 28 ருாயிறுக்கிழமை மற்றும் ஜனவரி 3ந் தேதி சனிக்கிழமை, 4ந் தேதி சூரியாறுக்கிழமை ஆகிய நாட்களில் சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது.



கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியம், பெத்தப்பள்ளி ஊராட்சியில் செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை சார்பாக அமைக்கப்பட்டிருந்த தமிழக அரசின் சாதனை விளக்க புகைப்படக் கண்காட்சியை பொதுமக்கள் பார்வையிட்டனர்.

மேலும், வாக்காளர்கள் தங்கள் விட்டிலிருந்து விண்ணப்பிக்க ஏதுவாக https://voters.eci.gov.in என்ற இணையதள முகவரி வாயிலாகவும், கைபேசிகளில் Voters Helpline App செயலியினை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.

மேட்டுப்பாளையம் இரண்டு சக்கர வாகன பணியாளர்கள் சங்க பொதுக்குழு கூட்டம்

மேட்டுப்பாளையம், டிச. 24- அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்குவது முடிவில் அவைத் தலைவர் தேவராஜ் தமிழ்நாடு இருசக்கர வாகன

என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது. நன்றி கூறினார்.



பழது நீக்குவோர் தலைமை நலச்சங்கத்தில் மேட்டுப்பாளையம் இரண்டு சக்கர வாகன பணியாளர்கள் சங்கம் இணைப்பு விழா மற்றும் சங்கப் பொதுக்குழு கூட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அரிமா சங்க அரங்கத்தில் நடைபெற்றது.

மேட்டுப்பாளையம், டிச. 24- அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்குவது முடிவில் அவைத் தலைவர் தேவராஜ் தமிழ்நாடு இருசக்கர வாகன என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது. நன்றி கூறினார்.

Advertisement for JMJ Fintech Ltd. including company details, contact information, and a table of services.